



# जल चक्र खेल




## दिशानिर्देश



1. हर खिलाड़ी को एक स्थान चिह्नक चुन लेना चाहिए।  
उसे खेल पट्ट के प्रारंभ बिंदु पर स्थान चिह्नक को  
रखना चाहिए।



**2. खिलाड़ियों को बारी-बारी से पासा फेंकना चाहिए।  
पासे पर जो अंक आए, खिलाड़ी को उस बारी में  
उतने खाने आगे बढ़ना चाहिए।**



**3. जो खिलाड़ी एक संपूर्ण दौर की समाप्ति तक  
सबसे पहले पहुँचेगा, वह विजेता होगा!**